



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 22.05.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



यूपी-112 पीआरवी टीम ने तत्परता से बचायी गम्भीर रूप से घायलों की जान...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम के सफल पर्यवेक्षण में यू०पी० 112 पुलिस द्वारा लगातार जनपद वासियों को तत्काल सहायता हेतु पुलिस सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसके क्रम में दिनांक 21.05.2021 को थाना अजनर अन्तर्गत पीआरवी 1264 टीम को सूचना प्राप्त हुयी कि नवगांव रोड मोहनपुर तिराहे के पास दो बाइकों का एक्सीडेंट हो गया गया है, इस सूचना पर पीआरवी 1264 टीम (इवेंट संख्या 06441) अविलम्ब मौके पर पहुंचे तो देखा कि दो बाइक की आमने-सामने की टक्कर में चार बाइक सवार व्यक्ति घायल हो गए हैं जिसमें तीन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिस पर पीआरवी कर्मियों ने तत्काल चारों घायलों को पीआरवी वाहन में लेकर उन सभी के परिजनों को सूचित किया तथा सभी को उपचार हेतु बेलातल अस्पताल पहुंचाया जिससे उनकी जान बच सकी, पीआरवी के इस कार्य से चारों गंभीर घायलों क्रमशः 1. श्याममिलन पुत्र शत्रुघ्न 2. कपिल पुत्र डाल चंद्र निवासी गण ग्राम बुधवारा थाना अजनर जनपद महोबा 3. दल सिंह पुत्र रामदीन 4. दीपक पुत्र दल सिंह निवासी ग्राम कलोरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा को अल्प समय में अस्पताल पहुंचाया जिससे सभी को समय पर उपचार मिल सका व सभी की जान बचायी जा सके, सभी घायलों के परिजनों/स्थानीय लोगों ने पुलिस के इस कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

पीआरवी- 1264 स्टाफ का विवरण...

कमांडर - हे०का० रावेन्द्र कुमार पांडेय
सब कमांडर - हे०का० रामकरन सिंह
पायलट - हो०गा० राम किशोर





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 22.05.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



शहर की यातायात व्यवस्था से खिलवाड करने वाले 11 आपे किये गये सीज...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन पर शहर को जाम-मुक्त कराने व आवागमन को अनवरत गतिमान बनाये रखने के उद्देश्य से आज दिनांक 22.05.2021 को चलाये गये विशेष चेकिंग अभियान के तहत यातायात प्रभारी श्री अरविन्द मिश्रा के नेतृत्व में यातायात पुलिस ने कानून-कायदे को ताक पर रखकर बिना नम्बर प्लेट, बिना कागजात के अनावश्यक रूप से रोड़ पर खडे कर जाम लगाने व कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले आपे वाहनों की चेकिंग की गयी।

इस दौरान रोडवेज बस स्टैण्ड, आल्हा चौक, ऊदल चौक, परमानन्द तिराहा आदि शहर के प्रमुख जगहों पर चेकिंग की गयी, चेकिंग के दौरान 11 आपे चालकों के पास वाहनों से सम्बन्धित दस्तावेज न होने व कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर पकडा गया जिसके क्रम में सभी को नियमों की अनदेखी करने के कारण सीज किया गया।

यातायात प्रभारी श्री अरविन्द मिश्रा ने इस दौरान कहा कि विभाग द्वारा शहर को जाम-मुक्त करने के उद्देश्य से लगातार अभियान चलाकर मनमानी करने वाले चालकों पर शिकंजा कसा जायेगा।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 22.05.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना कोतवाली महोबा पुलिस ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के आदेश तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के नेतृत्व में चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.05.2021 को थाना कोतवाली महोबा **SHO** श्री बलराम सिंह द्वारा बनायी गयी टीम जिसमें व०उ०नि० श्री आनन्द कुमार मय हमराह कां० शिवकुमार ने अभियान के तहत थाना हाजा पर पंजीकृत मु०अ०स० 247/21 धारा 304/323/504 भादवि में नामजद वांछित अभियुक्त (1) बन्दी उर्फ प्रताप कुशवाहा पुत्र स्व० खेमराज उम्र 40 वर्ष (2) लखन कुशवाहा पुत्र बन्दी उर्फ प्रताप कुशवाहा को बजरिया मोड मस्जिद के पास महोबा से गिरफ्तार कर बाद आवश्यक कार्यवाही माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार वांछित अभियुक्तों का विवरण...

- (1) बन्दी उर्फ प्रताप कुशवाहा पुत्र स्व० श्री खेमराज उम्र 40 वर्ष
- (2) लखन कुशवाहा पुत्र बन्दी उर्फ प्रताप कुशवाहा नि० गण करहराकला थाना थाना कोतवाली महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. व०उ०नि० आनन्द कुमार थाना कोतवाली नगर महोबा जिला महोबा
2. का० शिवकुमार

बरामदगी- आलाकत्ल एक अदद कुल्हाड़ी





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 22.05.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



क्षेत्राधिकारी नगर मय पुलिस बल के शहर में पैदल गस्त करके लिया लॉकडाउन का जायजा

आज दिनांक 22.05.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में वैश्विक महामारी **कोविड-19** के प्रसार को रोकने हेतु जनपद में लगाये गये लॉकडाउन का पालन कराये जाने के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय, एसडीएम सदर मय कोतवाली महोबा पुलिस बल के साथ शहर में लगाये गये लॉकडाउन का जायजा लिया गया एवं अनावश्यक घूमते पाये गये लोगो को चालान भी किया गया। पैदल गस्त के दौरान लोगो से कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की गई एवं मास्क का प्रयोग करने व हाथों को बार-बार धोने व भीड़-भाड वाली जगहो पर न जाने को कहा गया। जनपद के समस्त थानों द्वारा क्षेत्र में पैदल गस्त करके लोगो को उक्त नियमों को पालन करने की अपील की गई। यातायात नियमो के उल्लंघन पर **32 ई-चालान व** कोविड-19 नियमो के उल्लंघन पर **42 व्यक्तियों से 9700/-रु0 शुल्क वसूला गया।**

